



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 कार्तिक 1939 (श०)
(सं० पटना 1089) पटना, सोमवार, 20 नवम्बर 2017

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
17 नवम्बर 2017

अधिसूचना संख्या-एम1-009/2014-52—राजनैतिक दलों एवं निर्वाचक प्रतीक की सूची से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं०-56/2017/रा.दल.अनु-III दिनांक 18.10.2017 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर,
अपर सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001. दिनांक 18 अक्टूबर 2017 26 आश्विन 1938 (शक)

सं.56/2017 रा.दल.अनु- III निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना सं. 56/2016/रा.दल.अनु- II, तारीख 13 दिसम्बर, 2016, में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी - III (राज्यीय दल) में-

स्तम्भ 3, 4 व 5 के अन्तर्गत क्रम सं. 5 प 12 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तः स्थापित की जाएंगी-

क्रं सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
5	गोवा	2. गोवा फॉरवर्ड पार्टी	नारियल	शीश महल, दूसरी मंजिल, कार्यालय 4, कोंबा, मडगांव, गोवा - 403601
12	मणिपुर	3. नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	द्वितीय तल, एमडीयू बिल्डिंग एम.जी. एवेन्यू, इम्फाल-795001 (मणिपुर)

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी - III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल) में-

(i) स्तम्भ 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 1837 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तः स्थापित की जाएंगी-

क्रं सं0	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1838	संयुक्त विकास पार्टी	ग्राम- सारसौल, पोस्ट ऑफिस- मुनी, थाना- अरनियरॉ, तहसी-खुर्जा, जिला-बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
1839	जन जन पार्टी	गली सं0-7, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1840	प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टी	मकान नं0-1-7-281, यादव निवास, राजनगर, पोस्ट-यशवंत नगर, पावडेवाडी नाका, जिला- नांदेड, महाराष्ट्र-431602
1841	अधिकार पार्टी	234, खिड़की अलीबेग, रेकाबगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224001 ।
1842	राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी	मकान नं0- 710, नया पूर्वा, डिग्री कॉलेज चौराहा, कचहरी रोड, लिबर्टी शोरूम के सामने, जिला-रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
1843	प्रजा पालना पार्टी	मकान सं. 64-1डी-8ए1, ट्रेजरी कॉलोनी, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533004
1844	साउथ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	63, मुनिसीपलायम रोड, (42/4-68सी), अरापालयम, कनमईकरई मेन रोड, मदुरई, तमिलनाडु-625016
1845	राष्ट्रीय विकास मोर्चा	557, पाना उद्यान, नरेला, दिल्ली-40 ।
1846	वसुधैव कुटुम्बकम पार्टी	वार्ड नं.-07, होल्डिंग नं. 1050 नया, मोहल्ला-साहेबदादगंज, जिला-दरभंगा, बिहार।
1847	जन विकास पार्टी सेक्यूलर	1/97, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010
1848	भारतीय जन मोर्चा पार्टी	वार्ड नं. 1, सतना रोड, अमरपाटन, जिला-सतना, मध्य प्रदेश-485775
1849	भारतीय हिन्दू फौज	यु.जी.एफ-07, चित्रांश ड्रीम सोसाइटी, आर.के.पुरम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201013
1850	राष्ट्रीय वंचित पार्टी	मकान नं0 - 525(नया), 204 (पुराना), पल्टन बाजार सदर, मकन्दुगंज, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001 ।
1851	सर्वहित समाज सेवा पार्टी	मकान नं0-177, ग्राम व पोस्ट-शाहजहाँपुर बैजना, थाना-दादों, जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश- 2002133 ।
1852	नवीन समाजवादी दल	133/4सी/1सी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1853	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)	श्री बालाजी काम्प्लेक्स गौधी मैदान के पास, खमतराई, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001 ।
1854	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट)	बी-12/704, विजय पार्क, कासारवड़ावली, जी.बी. रोड, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र - 400615
1855	संघर्ष समाज पार्टी	मकान नं0-44, ग्राम-ढका, पोस्ट-अखा, तहसील-आँवला, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश रु-243001

क्रं सं०	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1856	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	जंग बहादुर यादव का मकान, गांव- मौलानीपुर बाजार, पोस्ट-तरवाँ, तहसील-लालगंज, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
1857	लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी	नं० - 5, एच० आई० जी०-160, 100 फीट रोड, नेहरू एन्कलेव, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001
1858	पीपुल्स रिसर्जेन्स एन्ड जस्टिस अलायन्स	मकान नं. 156, खोम्रम सेलुन्गबम लेयकई, थांगमेईबंद, पी.ओ./पी. एस-लांफेल, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795004
1859	बुन्देलखण्ड क्रान्ति दल	मकान नं. 40, मोहल्ला-खाई, नई बस्ती, झांसी, उत्तर प्रदेश-284001
1860	यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पार्टी	नं. 10/116, मथागनेरी, साउथ स्ट्रीट, सेम्बिकुलम(पोस्ट), वडाकनकुलम (वाया), तालुक- राधापुरम, जिला-तिरुनेलवेली, तमिलनाडु-627116
1861	लोकशाही सत्ता पार्टी	“पंचवटी” बोरडीपा, रामजी मंदिर के पास, बावला तहसील-बावला, जिला-अहमदाबाद, गुजरात-382220 ।
1862	कर्नाटक प्रगन्धावन्ता जनता पार्टी	नं० 23, दूसरी 'ए' मेन रोड, 7 वां क्रॉस, मुनेश्वर लेआउट, श्रीगंदनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560091
1863	सामान्य प्रजा पार्टी	डी० नं० 48-11-10/4, अशोक नगर, एम.बी.एस. ज्वेलर्स के सामने, असीलामेट्टा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश-530016
1864	जन आवाज विकास पार्टी	मकान नं० - 631,द्वितीय तल, मेन रोड, मुखर्जी नगर, दिल्ली।
1865	स्वराज इंडिया	यूनिट 109, प्रथम तल,एम.एम. हाउस, 59 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055
1866	भारत भूमि पार्टी	मकान नं. 48, ग्राम-खपरी (टांडपारा), पोस्ट-पकरिया, तहसील-पामगढ़, थाना-मुलमुला, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़- 495553
1867	पिछड़ा समाज पार्टी यूनाईटेड	मढ़रिया काम्पलेक्स, मुक्त नगर, पुलगाँव रोड,पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001
1868	क्रान्ति जनशक्ति पार्टी	1058, यादव पुरा, पुरानी विधान सभा के सामने, वार्ड नं०- 34, जोन नं०- 8, तहसील-हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश।
1869	प्रजा स्वराज पार्टी	मकान नं. 7-2-104/11, प्लॉट नं. 11, श्रीकृष्ण नगरी, चिंतलकुंटा चेक पोस्ट, एल.बी.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य- 500003
1870	अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार पार्टी	बी-19/70-4, ड्योडियाबीर, भोलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1871	नागालैंड कांग्रेस	मकान नं० - 202, फ़ैलोशिप कॉलोनी,आई एम सी हॉल के पास, दीमापुर, नागालैंड - 797112
1872	नेशनल लेबर पार्टी	डी-22, ऑफिस नं० 11, डी-ब्लॉक, पांडवच नगर, दिल्ली-110092 ।
1873	कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी	मकान सं० - 46, लाला मोहम्मदपुर, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1874	ऑल इन्डिया जन आन्दोलन पार्टी	खादाले, पुदुंग बस्ती, रैली रोड, कालिम्पोंग खासमहल, पोस्ट व थाना-कालिम्पोंग, जिला- दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल- 734301 ।
1875	रीयल डेमोक्रेसी पार्टी	37, अक्षर डायमंड मार्केट, सरदार चौक, मिनी बाजार, वराछा रोड,सूरत,गुजरात- 395006 ।
1876	अण्डमान एंड निकोबार जनता पार्टी	गाराचरमा गाँव, टीटीआई रोड, तहसील-पोर्ट ब्लेयर, जिला-दक्षिण अण्डमान, अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह-744103 ।
1877	राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	मकान नं०- 397, ग्राम-सोनारी, पोस्ट -सोनारी(रामगंज), थाना - पीपरपुर, तहसील- अमेठी, जनपद- अमेठी, उत्तर प्रदेश - 228159
1878	अधिकार विकास पार्टी	शिवाला छाया मकान नं०- 10/571, अरुण नगर, अत्य आय वर्ग समिति, वार्ड नं०-10, तहसील - हुजूर, जिला- रीवा, मध्य प्रदेश।
1879	राष्ट्रीय मतदाता पार्टी	मोहल्ला-सैय्यदवाड़ा, कस्बा-मलिहाबाद, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1880	राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी	नियर ए.पी.एस, बिसाहड़ा, दादरी (गौतम बुध नगर) उत्तर प्रदेश-203207 ।
1881	नागरिक सेवा पार्टी (आर)	4, तायल विहार कॉलोनी, गेट नं०- 2, ऐशबाग रोड, हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226004
1882	सर्व हित पार्टी	602-बी, खसरा सं० 298/199, 298/207, 298/209, मोहल्ला बॉस, सुनार वाली गली, ग्राम- घिठोरनी, नई दिल्ली - 110030
1883	राष्ट्रीय बहुजन क्रान्ति दल	ग्राम - दतावली गेसूपुर, जय भीम नगर,गढ़ रोड,निकट मैडिकल कॉलेज, तहसील -मेरठ, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश।

क्र सं०	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1884	आम जनता पार्टी (इंडिया)	रानीपुरवा प्राइमरी स्कूल के पीछे, जानकी नगर, पोस्ट- बस स्टाप, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश।
1885	भारतीय मजदूर जनता पार्टी	ग्राम - लालपुरा, पो०- कुकथरी (पिनाहट), तहसील-बाह, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश-283123
1886	अन्ना एमजीआर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	मकान नं० - 176, वार्ड नं० - 5, ईस्ट स्ट्रीट, पलोडाई कॉलोनी, अन्नाईमलाईयाम्पट्टी, उत्थमापलायम- तालुक, थेनी-जिला तमिलनाडु - 625526
1887	सरदार पटेल सिद्धान्त पार्टी	ग्राम- नेवादा, पोस्ट- बहुता, तहसील- पट्टी, जिला-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230135 ।
1888	जनता कांग्रेस	278 ए, प्रथम तल, जी.के. कॉम्पलेक्स, मेन रोड ओखला, जामिया नगर, नई दिल्ली- 110025
1889	भारतीय पंचायत पार्टी	डी-15/674, गली नं०- 5, गणेश नगर-2, शकरपुर, दिल्ली-110092
1890	नव चेतना पार्टी	मोहल्ला-जगतनगर, कस्बा व पोस्ट-भोगाँव, जिला-मेनपुरी, उत्तर प्रदेश-205262 ।
1891	भापसे पार्टी	ग्राम- मस्सा (खं), तहसील-कलम, जिला-उस्मानाबाद, महाराष्ट्र-413507 ।
1892	बहुजन राष्ट्र समिति	प्लॉट नं०-34/2, ललितनगर, वेस्ट मारेडपल्ली, सिंकदराबाद, तेलंगाना-500026
1893	राष्ट्रीय जनरल पार्टी	वार्ड नं० 11, आदर्श नगर, कलेक्ट्रीएट रोड, बक्सर, बिहार-802101 ।
1894	बहुजन बल पार्टी	डी० एस०-50/जी-II, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1895	इंडियन डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव-बाबू शंकर नगर, मौजा-भालुकसुंदी, जे.एल.नं०: 22, पोस्ट-अलीगढ़ थाना-राजनगर, जिला-वीरभूम, पश्चिम बंगाल-731130 ।
1896	ऑल इंडिया मानवाधिकार राजनैतिक दल	ग्राम व पोस्ट- राजापुर, थाना- चोलापुर, तहसील व जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221101 ।
1897	अनैतुमक्कल नीति काँची	डी० नं० 11, भूतल, 8वीं स्ट्रीट एक्सटेंशन, अहिंसापुरम, सेलुर, मदुरै, तमिलनाडु - 625002
1898	अहिंसा सोशलिस्ट पार्टी	डी० नं०- 5/125, वेस्ट पालापट्टी, पोस्ट-सेलप्पमपट्टी, तालुक व जिला-नामक्कल, तमिलनाडु-637019
1899	नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी	अभिनव निवास, रापतपुर, बेलघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273404 ।
1900	यूथ सोसलिस्ट पार्टी	मकान नं०- 248, सिहोरा गोविन्द (गोविन्द नगर), पोस्ट व थाना-कटघर, तहसील व जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001 ।
1901	भारतीय युवा सेना	मकान सं०-1-407, कस्बा विभाग, किल्ले धारूर, तालुक- धारूर, जिला-बीड, महाराष्ट्र-431124 ।
1902	अपना अधिकार पार्टी	मसीहा ड्रग हाऊस, लाईन बाजार, पूर्णियाँ, बिहार।
1903	प्रबुद्ध भारत प्रजासत्तक पार्टी	ए/101, पंचशील नगर, सेवा संघ नं०- 3, नियर अनिक डिपोट, सायन(पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र- 400022 ।
1904	सम्पूर्ण समर्पण पार्टी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर, भुजौली कॉलोनी, प्लॉट नं० ई. डब्ल्यू.एस-209-210, देवरिया, उत्तर प्रदेश-27400
1905	मक्कल नलवाजहवुक काँची	फ्लैट नं० - जी3, वेटरी फ्लैट्स, नं०-7 (पुराना नं० 3ए), कावेरी स्ट्रीट, गाँधी नगर, शालीग्रामम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600093
1906	देशबन्धु पार्टी	ग्राम- मेहरबान नगर, निकट प्राइमरी पाठशाला, मेहरबान नगर, बाईपास रोड नानपारा, पो० - बलहा, तहसील - नानपारा, जिला - बहराइच, उत्तर प्रदेश।

क्रं सं०	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1907	सामान्य जनता पार्टी (लोकतांत्रिक)	नं०- 17, मकान नं० - 29, बसावना दुर्गा (कोरम्मा कैम्प), गंगावती, जिला - कोप्पल, कर्नाटक - 583227
1908	व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	बौद्ध डायमण्ड, तालुक पंचायत रोड, कोर्ट के सामने पोस्ट व तालुक- घोघा, जिला- भावनगर, गुजरात।
1909	राष्ट्रीय जागरूक पार्टी	मकान संख्या- बी-7/209, सट्टा बाजार, कोट कपूरा, जिला- फरीदकोट, पंजाब - 151204
1910	मराठवाडा जनता पक्ष	मौजे पाखर सांगवी, गेट नं० - 39, संत तुकाराम विद्यालय के पास, तालुक व जिला - लातूर, महाराष्ट्र - 413512
1911	तिपरालैण्ड स्टेट पार्टी	ओल्ड कालीबाडी रोड, कृष्णानगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा- 799001.
1912	नेशनल नव क्रान्ति पार्टी	डी. नं०-1-236, गाँव -गंगावरम, मंडल- गुरजाल, जिला-गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522415 ।
1913	देश हित पार्टी	प्लॉट नं० - 467, ग्राम- जमुनी, पोस्ट-तरकुलवा, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश।
1914	सर्वजन सेवा पार्टी	163/200/1, सलारी का हाता, चिकमण्डी, मौलवीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-18
1915	अहिंसा समाज पार्टी	प्रियदर्शनी कॉलोनी, वृद्धा आश्रम के पास, वार्ड नं०-47, छिंदवाडा, तहसील व जिला-छिंदवाडा, मध्य प्रदेश- 480001
1916	जन सम्मान पार्टी	जी- 238, मेन रोड, गली नं०- 6/28, बाल ज्ञान स्कूल, पश्चिम करावल नगर, दिल्ली - 110094
1917	जन सेवा संघर्ष पार्टी	गाँव व पोस्ट - पीली मन्दोरी, तहसील- भट्टु कलॉ, जिला- फतेहाबाद, हरियाणा-125053 ।
1918	भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी	रोजी अनीमा एक्स.टी.टी.आई, अखण्ड ज्योति हास्पिटल के पास, दीघा, पटना, बिहार-800011
1919	तमिलागा मक्कल द्रविड मुन्नेत्र कजगम	3-196, पोस्ट - वेम्बरपट्टी, वेम्बरपट्टी, तालुक व जिला - डिंडिगुल, तमिलनाडु - 624008
1920	भारतीय जन सम्पर्क पार्टी	मकान संख्या-3616, शारदा निवास कटरा, आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
1921	इंजीनियर्स पार्टी	बूताना हूसुर, पोस्ट- सुनागहल्ली, जिला-मंड्या कर्नाटक- 571403
1922	हिन्दुस्तान हमारा पार्टी	555ए/1, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211002
1923	अमन पार्टी ऑफ इण्डिया	83, सुशीला विहार फेस - प्रथम, वार्ड नं०-2, भूड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
1924	असम संग्रामी मंच(असम)	मकान नं०- 36, बाई लेन नं०-9 (पश्चिम), जू रोड तिनिआलि, आर. जी. बरूआ रोड, गुवाहटी, असम-781003 ।
1925	देसीया मक्कल कझगम	डोर नं० - 1/239-3, मेन रोड, आर.सी. चेट्टीपट्टी, कोट्टामेट्टुपट्टी विलेज, धर्मापुरी ओमलुर तालुक, जिला-सलेम, तमिलनाडु - 636455
1926	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	मकान नं०- 27, ग्राम- वीरपुर सिंघाड़ा, पोस्ट-सिंघाड़ा, जिला-वैशाली, बिहार- 800011
1927	भारतीय जनसमानता अधिकार पार्टी	कोठी नं०-2, पूर्णागिरी विहार, पटेल नगर, पो०-इज्जत नगर, जनपद-बरेली, उत्तर प्रदेश ।
1928	जनसमुदाय पार्टी	57, प्रथम तल, स्टेडियम हाउस, स्टेडियम क्रॉस रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात - 380009 ।
1929	भारतीय निवास पार्टी	ग्राम -सरबसी, पोस्ट- बढनी, गोपालपुर (उनवल), जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273406 ।
1930	यूनिवर्सल ब्रदरहुड मूवमेंट पार्टी	57-डी, साथुर मेन रोड, कोविलपट्टी, जिला-तुत्तुकुडी, तमिलनाडु-628501

क्र सं०	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1931	भारतीय समाज सेवा पार्टी	मकान नं०- 1, ग्राम- वनुपुर पुख्ता, पोस्ट-मलिकपुर (सोरो), जिला - काशगंज, उत्तर प्रदेश ।
1932	कठोर शासन पार्टी	75, बी-3, जाटन, भगवती भवन, पी. ओ. व जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246701
1933	मनीथनेया जनान्यागा काँची	124, कामराजार रोड, मौला कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, इलायंगुडी, जिला-शिवगंगई, तमिलनाडु-630702
1934	लोहिया संयुक्त समाजवादी पार्टी	एच-ब्लाक, हाउस नं०- 359, सेक्टर - 9, ओल्ड विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1935	स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी	शॉप नं० - 7 व 8, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, भगवती आर्कड, जवाहर रोड नं० - 5, उधना उद्योग नगर, उधना, सूरत, गुजरात - 394210 ।
1936	राष्ट्रीय आजाद मंच	गाँव व पोस्ट - शाहजादपुर, तहसील- नारायणगढ़, जिला- अम्बाला, हरियाणा ।
1937	भारत माता सपूत पार्टी	ग्राम- डेहरिया दयाराम, पोस्ट- लोहरा खास, जिला-भदोही, उत्तर प्रदेश- 221303
1938	प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं०. 33, मोहल्ला- बम्बाघेरा, टाउन व थाना-रामनगर, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड
1939	आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम	डी. नं०. 33, कन्नादासन मेन रोड, पहली मंजिल, एस.एस. कॉलोनी, मदुरै, तमिलनाडु- 625010
1940	जन आंदोलन मोर्चा	ए-8/18, प्रथम तल, ब्लॉक-ए, पॉकेट - 8, सेक्टर - 17, रोहिणी, दिल्ली - 110085
1941	भारतीय हिमाचल जन विकास पार्टी	गांव व डाकघर - बढलठोर, तहसील - देहरा, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 177105
1942	लोक निर्माण दल	2, अराधना इन्कलेव, सुरखपुर मार्ग, फेस-II, दिल्ली ।
1943	जनता क्रान्ति पार्टी	भरत विहार कॉलोनी, बड़े शिव मंदिर के सामने, मण्डावर रोड, बिजनौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश- 246701
1944	झारखण्ड पार्टी (सेकुलर)	ग्राम - उनीडीह, पोस्ट - राजा उलातु, थाना - नामकुम, जिला - राँची, झारखण्ड ।
1945	गरीब जनक्रान्ति पार्टी	वार्ड - 12, होल्लिंग संख्या - 747/642, दाउदपुर कोठी, एम0आई0टी0 गेट के सामने, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842003
1946	मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी	नया वार्ड क्र.- 72, मकान नं० -4872, प्लाट नं०- 123, फेस-2, स्टार सिटी, कटंगी रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
1947	स्टेट समविभाजन पार्टी	मकान संख्या - 56, गाँव - सोनखास, ता. - नेर, जिला - यवतमाल, महाराष्ट्र - 445102 ।
1948	इंडियन लवर्स पार्टी	नं० - 23, बी - ब्लॉक, द्वातीय स्ट्रीट, भूपति नगर, कोडमबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600024
1949	भारतीय लोक सेना	लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, ऑफिस नं०-2, बिल्डिंग नं०- ए0-212-सी, तिरुपति प्लाजा, गली नं०- 1, शकरपुर विकास मार्ग, दिल्ली - 110092
1950	जन सृजन पार्टी	15-डी, कौशलपुरी, खरगापुर, विकास खण्ड - चिनहट, गोमतीनगर, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1951	जनशक्ति पार्टी (राष्ट्रीय)	प्लॉट नं०-38, भू-तल (ग्राउन्ड फ्लोर), के डी के पब्लिक स्कूल के सामने, मेन रोड, मंडावली, फजलपुर, दिल्ली-110092
1952	समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक	7-5-14/बी, वेंकटेश्वर कॉलोनी, महबूब नगर, तेलंगाना-509001
1953	राष्ट्रीय समता विकास पार्टी	मकान सं. 227/111, विष्णुपुरी भूतेश्वर, पोस्ट- कृष्णानगर, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281004

क्रं सं०	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1954	वाजिब अधिकार पार्टी	ग्राम व पोस्ट - पोहददी बेला, ब्लॉक- धनश्यामपुर, जिला-दरभंगा, बिहार- 847427 ।
1955	वसुंधरा जन विकास दल	खाता नं०- 39, 39, प्लॉट नं०-32, 35 तथा 36, मोजा तथा थाना नं०- 371, न्यू थाना नं०- 27, एन.एच- 2, शिव सागर, जिला - रोहतास, बिहार - 821111 ।
1956	समदर्शी समाज पार्टी	ग्राम- मानिकापुर मजरे सराय पाण्डेय, पोस्ट- जैरास, परगना व तहसील- हैदरगढ़, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
1957	हम भारतीय पार्टी	मकान नं. 1-3-3227, हर्षरूस, मुक्ता लॉन के पीछे, जीजऊ नगर, बार्शी रोड, बीड, महाराष्ट्र- 431122
1958	प्रजा कांग्रेस पार्टी	डी-6/6154/6, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070
1959	अनारक्षित समाज पार्टी	मकान नं०- 371, प्रथम तल, मोहल्ला- सधवाड़ा, कायमगंज, जिला-फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1960	मक्कल नीति कॉची-इंडिया	नं० 112ए3, वड्डाक्कु थिरु (प्रवीन कॉम्प्लेक्स) ग्राउंड फ्लोर, त्रिची मेन रोड, थुराईमंगलम पोस्ट, तालुक व जिला- पेराम्बलुर, तमिलनाडु- 621220
1961	लोक विकास मंच	शॉप नं०- 159, दूसरी मंजिल, शॉपिंग सेंटर, आर-वर्ल्ड सिनेमा के पास, सेक्टर-21, गाँधीनगर, गुजरात ।
1962	आम दल	प्लॉट/भवन नं० - 191, बुद्धा एन्क्लेव, लोहिया नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1963	समान्या मक्कल नाला काची	डोर नं० 298ए, कृष्णागिरी, मेर रोड, उत्थानगरई, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु - 635207.
1964	भारतीय प्रजागला कल्याणा पक्षा	नं० - 23, फ्लैट नं० - 401, चौथी मंजिल, एवरजॉय, नंदनावना, तृतीय क्रॉस, द्वारका नगर, चन्नासंदार, बैंगलोर, कर्नाटक- 560098.
1965	मर्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रेड फ्लैग)	डूर नं.- 828, द्वितीय तल, एरोमा बिल्डिंग, पुडुक्कड- पोस्ट ऑफिस, थिरुूर - जिला, केरल- 680301.
1966	राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी	एन 8/236-आर-53-1, गणेश धाम कॉलोनी, नेवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221004.
1967	प्रगतिशिल समाजवादी पार्टी (लोहिया),	सीपी.- 1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010.
1968	जनतांत्रिक लोकहित पार्टी	दूसरा तल, पी. मॉल, बी ब्लॉक, एकजीबिशन रोड, पटना बियरिंग, वार्ड नं.-6 (पुराना), 18 (नया), शीट नं०-30, सर्किल नं०- 06, एस.एस.पी.- 832, 839, 1282, बिहार ।
1969	राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी	खसरा नं. 496/1, मेन वजीराबाद रोड, ग्राम- पसौदा, तहसील-लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
1970	जम्मू कश्मीर सेव पार्टी	गाँव- रावलपेरा, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर
1971	इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया	गोल बाजार, पोस्ट- अकोट, जिला-अकोला, महाराष्ट्र-444101
1972	वन इंडिया पार्टी	डी-46 ए, कृष्ण विहार, दिल्ली- 110086
1973	भातीय बहुजन क्रांति दल	सेवागढ़ बिल्डिंग नं.- 02, अजादेगांव, डोंबिवली पूर्व, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र-421201
1974	भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी	154/17, राज चेंबर, (फखरुद्दीन मंजिल), अलीभाई प्रेमजी मार्ग, ग्रांट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400007.
1975	राष्ट्रीय जनता काँग्रेस	12, सिरि फोर्ट रोड, नई दिल्ली - 110049.
1976	इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी	ऑफिस नं० - 107, द्वितीय तल, 1 st क्रॉस, 'ए' ब्लॉक, ए. के. कॉलोनी रोड, घौसिया नगर, मैसूर सिटी, कर्नाटक - 570019

क्र सं०	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1977	युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	प्लॉट नं० - 63, गुरुकृपा सोसाईटी, पंच फलिया, दाम्भोलिगम, कटरगम, सूरत, गुजरात-395004
1978	खुसरो सेना पार्टी	आई-4/95, शास्त्री नगर, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश।
1979	भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष	ए./पी.- खांडज, तालुका-बरामती, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 413116
1980	देश जनहित पार्टी	प्लॉट नं. 78, विनायक को० हाऊसिंग सोसाईटी बिदीपेट, पावर हाउस के पीछे, नरसाला, मकान नं०-4430/78, मौजा बिदीपेट, नागपुर-30 महाराष्ट्र।
1981	इंसानियत पार्टी	मकान नं०- 262/1, गणनायक भवन, एट व पो.-सनाली, तालुका-महुधा, जिला-खेड़ा, गुजरात-387330।
1982	आम जनता पार्टी (सर्वजन हिताय)	243-244, द्वितीय तल, राधा चैम्बर्स, प्लॉट नं०-9, जी-ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, विकासपुरी, दिल्ली-18
1983	नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी	मकान नं. 155(1), वार्ड नं. 4, चुमुकेदीमा, दीमापुर, नागालैंड- 797103

- (ii) क्रम सं. 222 के सामने 'अवामी पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'ई-11/77, न्यू कॉलोनी, हॉजरानी, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) क्रम सं. 539 के सामने 'दलिथा प्रजा पार्टी' से संबंधित स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'महाजना राज्यम पार्टी' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) क्रम सं. 998 के सामने 'मक्कल मनाडु काची' से संबंधित स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'तामिजागा मूरपोक्कू मक्कल काच्चि' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) क्रम सं. 1092 के सामने 'नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'हाउस नं.1080, ब्लॉक-पी/1, सुलतान पुरी कालोनी, नई दिल्ली-110041' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) क्रम सं. 1456 के सामने 'राष्ट्रीय इन्साफ पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों '604, अनुभव ईलेडको, उद्यान-2, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025, उत्तर प्रदेश' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vii) क्रम सं. 1468 के सामने 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'सतनाम मैनसन, तीसरा मंजिल, बिल्डींग नं.245, पी डिमैलो रोड, रोल नं.1393 म्युनिसीपल को-ऑपरेटिव बैंक के उपर, जीपीओ के अपोजिट, मुंबई -400001' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (viii) क्रम सं. 1611 के सामने 'सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'ग्राम: मीरन गंज, पो0-रामपुर रसडा, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश-221712' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ix) क्रम सं. 1717 के सामने 'युनाइटेड वूमन फ्रंट' से संबंधित स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'कलींग नेशनल फ्रंट' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (x) क्रम सं. 1754 के सामने 'विकासशील समाज पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों '305 ऐ, साहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xi) क्रम सं. 1766 के सामने 'वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'ई-57/1, अबूल फजल एनक्लेव-1, जामिया नगर, नई दिल्ली -110025' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xii) क्रम सं. 1804 के सामने 'समाज अधिकार कल्याण पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'ऑफिस नं. 822-823, आठवाँ तल, मैसर्स बाजवा डेवलपमेंट लिमिटेड, सन्नी बिजनेस सेन्टर, न्यू सन्नी एन्क्लेव, सेक्टर -125, मोहाली, पंजाब' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. उक्त अधिसूचना से संलग्न विद्यमान सारणी- IV (मुक्त प्रतीकों की सूची) के क्रम सं. 43 पर विद्यमान प्रतीक 'नारियल' को विलोपित किया जाएगा।

के एफ विलफ्रेड,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

The 18th October 2017

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 18th October, 2017
26 Asvina, 1938 (Saka).

No. 56/2017/PPS-III—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No. 56/2016/PPS-III dated 13th December, 2016, as amended from time to time, namely: -

1. In Table II (State Parties), appended to the said Notification -

After the existing entries at Sl. No.5 & Sl. No.12, the following entries shall be inserted under Column Nos. 3, 4 & 5 respectively: -

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Goa	2. Goa Forward Party	Coconut	Sheesh Mahal, 2 nd Floor, Office 4, Comba, Margao, Goa - 403601.
12	Manipur	3. National People's Party	Book	2 nd Floor, MDU Building, M. G. Avenue, Imphal 795001 (Manipur)

2. In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification-

① After the existing entries at Sl. No. 1837, the following entries shall be inserted under Column Nos. 1, 2 & 3, respectively: -

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1838	Sanyukt Vikas Party	Village — Sarsaul, Post Office — Muni, P.S.— Araniya, Tehsil— Khurja, District— Bulandshahr, Uttar Pradesh.
1839	Jan Jan Party	Gali No.— 7, Village— Mamura, Secto 66, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1840	Prajasattak Samajwaadi Bharat Party	H. No.— 1-7-281, Yadav Niwas, Rajnagar, Post— Yashwant Nagar, Pavdewadi Naka, District — Nanded, Maharashtra- 431602.
1841	Adhikar Party	234, Khirki Alibeg, Rekabganj, Faizabad, Uttar Pradesh-224001.
1842	Rashtriya Jan Adhikar Party	H.No. 710, Naya Purva, Degree College Chauraha, Kachari Road, Opp. Liberty Showroom, District- Rae Bareli, Uttar Pradesh.
1843	Praja Palana Party	H.No. 64-1D-8A/1, Treasury Colony, Kakinada, East Godavari District, Andhra Pradesh-533004.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1844	South India Forward Bloc	63, Municipalayam Road, (42/4 — 68 C), Arapalayam, Kanmaikarai Main Road, Madurai, Tamil Nadu — 625016.
1845	Rashtriya Vikas Morcha	557, Pana Udyan, Narela, Delhi - 40.
1846	Vasudhaiv Kutumbakam Party	Ward No. 07, Holding No.1050New, Mohalla- Sahebdad Ganj, District Darbhanga, Bihar.
1847	Jan Vikas Party Secular	1/97, Vishesh Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1848	Bharatiya Jan Morcha Party	Ward No.-1, Satna Road, Amarpatan, District— Satna, Madhya Pradesh- 485775
1849	Bhartiya Hind Fauj	UGF-07, Chitransh Dream Society, R.K.Puram, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201013
1850	Rashtriya Vanchit Party	H.No.525 (New), 204 (Old), Paltan Bazar Sadar, MakandruGanj District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230001.
1851	Sarvhit Samaj Sewa Party	H. No. 177, Village & Post — Shahjahanpur Baijna, P.S. — Dadon, District — Aligarh, Uttar Pradesh-202133.
1852	Naveen Samajwadi Dal	133/4C/1C, Teliarganj, Allahabad, Uttar Pradesh.
1853	Janta Congress Chhattisgarh (J)	Shri Balaji Complex, Near Gandhi Maidan, Khamtarai, Raipur, Chhattisgarh- 492001 Chhattisgarh- 492001. B-12/704, Vijay Park,Kasarpadavli, G.B.Road, Thane (W), Maharashtra -400615.
1854	Republican Party of India (Reformist)	B12/704, Vijay Park,Kasarpadavli, G.B.Road, Thane (W), Maharashtra -400615.
1855	Sangharsh Samaj Party	H. No. 44, Village-Dhaka, P.O.- Akha, Tehsil -Aonla, District- Bareilly, Uttar Pradesh - 243001.
1856	National Democratic Front	House of Jangbahadur Yadav, Village — Maulanipur Bazar, Post — Tarwan, Tehsil — Lalganj, District — Azamgarh, Uttar Pradesh.
1857	Loktantrik Yuva Shakti Party	No.5, HIG-160, 100 Feet Road, Nehru Enclave, Agra, Uttar Pradesh -282001.
1858	Peoples Resurgence and Justice Alliance	House No. 156, Khomdram Selungbam Leikai, Thangmeiband, PO/PS: Lamphel, Imphal West, Manipur- 795004
1859	Bundelkhand Kranti Dal	House No.40, Mohalla- Khai, New Basti, Jhansi Uttar Pradesh -284001.
1860	United States of India Party	No. 10/116, Mathaganeri, South Street, Sembikulam(P0), (PO), Vadakankulam (Via), Taluk - Radhapuram, District - Tirunelveli, Tamil Nadu- 627116.
1861	Lokshahi Satta Party	Tanchvati' Boradipa, Near Ramaji Mandir, Bavla, Taluk - Bavla, District -Ahmedabad, Gujarat - 382220.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1862	Karnataka Pragnyavantha Janatha Party	No.23, 2 nd "A" Main Road, 7 th Cross, Muneshwara Layout, Srigandhanagar, Bengaluru, Karnataka — 560091
1863	Samaanya Praja Party	D. No. 48-11-10/4, Ashok Nagar, Opp. M.V.S Jewellers, Assilametta, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530016.
1864	Jan Awaz Vikas Party	H.No. 631, Second Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi.
1865	Swaraj India	Unit 109, 1 st Floor, M.M. House, 59 Rani Jhansi Road, New Delhi — 110055.
1866	Bharat Bhoomi Party	House No. 48, Village- Khapri (Taandpara), Post Office- Pakaria, Tehsil -Pamgarh, Thana- Mulmula, District- Janjgir-Champa, Chhattisgarh- 495553
1867	Pichhara Samaj Party United	Madhariya Complex, Mukht Nagar, Pulgaon Raod, Padmanabhpur, Durg, Chhattisgarh 491001
1868	Kranti Janshakti Party	1058, Yadav Pura, In front of Purani Vidhan Sabha, Ward No. 34, Zone No.8, Tehsil — Hujur, Bhopal, MADHYA PRADESH
1869	Prajaa Swaraaj Party	House No. 7-2-104/11, Plot No. 11, Srikrishna Nagar, Chinthalakunta Check Post, L.B. Nagar, Hyderabad, Telangana state-500003
1870	Akhil Bhartiya Rashtriya Parivar Party	B-19/70-4, Dyodhiabeer, Bhelupur, Varanasi, UTTAR PRADESH.
1871	Nagaland Congress	H. No. 202, Fellowship Colony, Near IMC Hall, Dimapur, Nagaland - 797112.
1872	National Labour Party	D-22, Office No. 11, D-Block, Pandav Nagar, Delhi-110092.
1873	Kartavya Rashtriya Party	H. No. - 46, Lala Mohamadpur, Kankar Khera, Meerut, UTTAR PRADESH.
1874	All India Jana Andolan Party	Khadalay, Pudung Busty, Relly Road, Kalimpong Khasmahal, Post and Police Station- Kalimpong, Dist- Darjeeling, West Bengal- 734301.
1875	Real Democracy Party	37, Akshar Diamond Market, Sardar Chowk, Mini Bazar, Varachha Road, Surat, Gujarat — 395006.
1876	Andaman & Nicobar Janta Party	Garacharma Village, TTI Road, Tehsil - Port Blair, District - South Andaman, Andaman & Nicobar Islands - 744103.
1877	Rashtriya Democratic Front	H. No. 397, Village - Sonari, Post Sonari (Ramganj), P.S. - Piparpur, Tehsil-Amethi, District - Amethi, UTTAR PRADESH - 228159.
1878	Adhikar Vikas Party	Shivala Chhaya House No. 10/571, Arun Nagar, Alpo Aaya Varg Society, Ward No. 10, Tehsil — Huzur, District — Rewa, MADHYA PRADESH
1879	Rashtriya Matdata Party	Mohalla — Sayedvada, Kasba — Malihabad, District — Lucknow, UTTAR PRADESH

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1880	Rashtriya Bharatiya Jan Jan Party	Near APS, Bishara, Dadri (Gautam Buddha Nagar), Uttar Pradesh - 203207
1881	Nagrik Sewa Party(R)	4, Tayal Vihar Colony, Gate No. - 2, Aishbagh Road, Haidarganj, Lucknow, UTTAR PRADESH - 226004.
1882	Sarva Hit Party	602-B, Khasra No. 298/199, 298/207, 298/209, Mohalla Bans, Sunar Wali Gali, Village — Ghitorni, New Delhi-110030 .
1883	Rashtriya Bahujan Kranti Dal	Village — Datavli Gesupur, Jai Bheem Nagar, Garh Road, Near Medical College, Tehsil - Meerut, District — Meerut, UTTAR PRADESH.
1884	Aam Janta Party (India)	Behind Ranipurwa Primary School, Janki Nagar, Post — Bus Stop, District — Gonda, Uttar Pradesh.
1885	Bharatiya Majdoor Janta Party	Village — Lalpura, Post — Kukthari (Pinahat), Tehsil — Bah, District — Agra, UTTAR PRADESH - 283123.
1886	Anna MGR Dravida Munnetra Kazhagam	H. No. — 176, Ward No. — 5, East Street, Palodai Colony, Aanaimalaiyanpatty, Uthamapalayam — Taluk, Theni — District, Tamil Nadu — 625526.
1887	Sardar Patel Siddhant Party	Village — Newada, Post — Bahuta, Tehsil — Patti, District — Pratapgarh, Uttar Pradesh -230135.
1888	Janata Congress	278A, 1 st Floor, G.K.Complex, Main Road Okhla, Jamia Nagar, New Delhi-110025 .
1889	Bhartiya Panchayat Party	D-15/674, Street No.- 5, Ganesh Nagar — 2, Shakarpur, Delhi-110092 .
1890	Nav Chetna Party	Mohalla - Jagat Nagar, Kasba & Post Bhongaon, District — Mainpuri, Uttar Pradesh - 205262 .
1891	Bhapase Party	Village -Massa (Khn), Tehsil - Kalam, District - Usmanabad, Maharashtra -413507.
1892	Bahujana Rashtra Samithi	Plot No. 34/2, Lalithanagar, West Marredpally, Secunderabad, Telangana 500026.
1893	Rashtriya General Party	Ward No. 11, Aadarsh Nagar, Collectriate Road, Buxar, Bihar- 802101.
1894	Bahujan Bal Party	D.S.-50/G-II, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
1895	Indian Democratic Congress	Vill.-Babu Sankar Nagar, Mouja Bhalucksundi, J.L.No: 22, Post- Aligarh, P.S.- Rajnagar, Dist- Birbhum, West Bengal- 731130.
1896	All India Manavadhikar Rajnaitik Dal	Village & Post -Rajapur, Thana - Cholapur, Tehsil & District -Varanasi, Uttar Pradesh - 221101.
1897	Anaithumakkal Neethi Katchi	D. No.11, Ground Floor, ^{8th} Street Extension, Ahimsapuram, Sellur, Madurai, Tamil Nadu - 625002.
1898	Ahimsa Socialist Party	D. No. 5/125, West Palapatty, Post Sellappampatty, Taluk and District Namakkal, Tamil Nadu-637019.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1899	Nationalist Janshakti Party	Abhinav Niwas, Rapatpur, Belghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273404.
1900	Youth Socialist Party	H. No. 248, Sihora Govind (Govind Nagar), Post & Thana — Katghar, Tehsil & District — Moradabad, Uttar Pradesh - 244001.
1901	Bhartiya Yuva Sena	House No. 1-407, Kasba Vibhag, Kille Dharur, Tq. — Dharur, District — Beed, Maharashtra - 431124.
1902	Apna Adhikar Party	Masiha Drug House, Line Bazaar, Purnia, BIHAR.
1903	Prabuddha Bharat Prajasattak Party	A/101, Panchsheel Nagar, Seva Sangh No. 3, Near Anik Depot. Sion (E), Mumbai, Maharashtra - 400022.
1904	Sampoorn Samarpan Party	Acharya Ramchandra Shukla Nagar, Bhujauli Colony, Plot No. E.W.S. — 209210, Deoria UTTAR PRADESH - 274001
1905	Makkal Nalvaazhvuk Katchi	Flat No. G3, Vetri Flats, No. 7 (Old No. 3A), Kaveri Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai, Tamil Nadu- 600093
1906	Deshbandhu Party	Village — Meharban Nagar, Near Primary School, Meharban Nagar, Bye-Pass Road Nanpara, Post — Balha, Tehsil— Nanpara, District— Bahraich, Uttar Pradesh
1907	Samanya Janatha Party (Loktantrik)	No.- 17, House No.- 29, Basavana Durga (Koramma Camp), Gangavathi, District Koppal, Karnataka- 583227
1908	Vyavastha Parivartan Party	At Baudh Diamond, Taluka Panchayat Road, Opp. of Court, Post & TalukaGhogha, District- Bhavnagar, Gujarat.
1909	Rashtriya Jagrook Party	House No.- B-7/209, Satta Bazar, Kot Kapura, District- Faridkot, Punjab-151204.
1910	Marathwada Janta Paksha	Mauje Pakhar Sangvi, Gut No. 39, Near of Sant Tukaram Vidyalaya, Tq. & District - Latur, Maharashtra — 413512.
1911	Tipraland State Party	Old Kalibari Road, Krisnanagar, Agartala, West Tripura, Tripura- 799001.
1912	National Nava Kranthi Party	D.No.- 1-236, Vill.- Gangavaram, MandalGurazala, Dist- Guntur, Andhra Pradesh-522 415.
1913	Desh Hit Party	Plot No. 467, Village- Jamuni, PostTarkulwa, District- Deoria, UTTAR PRADESH.
1914	Sarvjan Sewa Party	163/200/1, Salari-Ka-Hata, Chikmandi, Maulviganj, Lucknow, Uttar Pradesh-18.
1915	Ahinsa Samaj Party	Priyadarshni Colony, Near of Vridha Ashram, Ward No.47, Chhindwara, Tehsil and District- Chhindwara, Madhya Pradesh-480001.
1916	Jan Samman Party	G-238, Main Road, Gali No.- 6/28, Bal Gyan School, West Karawal Nagar, Delhi-110094.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1917	Jan Seva Sangharsh Party	Village & Post - Pilimandori, Tehsil- Bhattu Kalan, District- Fatehabad, Haryana -125053.
1918	Bhartiya Yuva Janshakti Party	Rozy Anima XTTL, Near Akhand Jyoti Hospital, Digha, Patna, BIHAR- 800011
1919	Tamilaga Makkal Dravida Munnetra Kazagam	3-196, Vembarpatty(PO), Vembarpatty, Taluk & District - Dindigul, Tamil Nadu —624008.
1920	Bhartiya Jan Sampark Party	House No. 3616, Sharda Niwas Katra, Aadhartal, Jabalpur, Madhya Pradesh.
1921	Engineers Party	Bhoothana Hosur, Post- Sunagahalli, District - Mandya, Karnataka- 571403
1922	Hindustan Hamara Party	555A/1, Mumfordganj, Allahabad, UTTAR PRADESH-211002
1923	Aman Party of India	83, Sushila Vihar Phase — 1, Ward No. 2, Bhood, Bulandshahr, Uttar Pradesh.
1924	Asom Songrami Mancha (Asom)	House No.-36, By Lane No-9 (West), Zoo Road Tiniali, R.G.Baruah Road, Guwahati, Assam - 781003.
1925	Dhesiya Makkal Kazhagam	Door No. 1/239-3, Main Road, R.C. Chettipatty, Kottamettupatty Village, Dharmapuri Omalur Taluk, District - Salem, Tamil Nadu - 636455.
1926	Rashtriya Samta Party (Secular)	I-I.No.- 27, Village- Veerapur Singhara, Post Singhara, Dist.- Vaishali, Bihar- 844126.
1927	Bhartiya Jansamanta Adhikar Party	Kothi No.— 2, Poornagiri Vihar, Patel Nagar, Post— Izzatnagar, Janpad — Bareilly Uttar Pradesh
1928	Jansamuday Party	57, 1st Floor, Stadium House, Stadium Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009.
1929	Bhartiya Niwas Party	Village- Sarbasi, P.O.- Barhni, Gopalpur (Unawal), District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273406.
1930	Universal Brotherhood Movement	57-D, Sattur Main Road, Kovilpatti, District - Thoothukkudi, Tamil Nadu- 628501.
1931	Bhartiya Samaj Sewa Party	H.No.01, Village - Vanupur Pukhta, P.O.- Malikpur (Soro), Distt.-Kasganj, Uttar Pradesh.
1932	Kathor Shasan Party	75, B-3, Jatan, Bhagwati Bhawan, P.O. & District - Bijnor, Uttar Pradesh - 246701.
1933	Manithaneya Jananayaga Katchi	124, Kamarajar Road, Moula Complex, First Floor, Ilayangudi, District - Sivagangai, Tamil Nadu- 630702.
1934	Lohia Sanyukta Samajwadi Party	H-Block, H.No. — 359, Sector — 9, Old Vijay Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1935	Svatantra Bharat Satyagrah Party	Shop No. — 7 & 8, Upper Ground Floor, Bhagwati Arcade, Jawahar Road No.-5, Udhna Udhog Nagar, Udhna, Surat, Gujarat - 394210.
1936	Rashtriya Azad Manch	Village&Post- Shahzadpur, TeshilNaraingarh, Dist.- Ambala, Haryana.
1937	Bharat Mata Saput Party	Village- Dehariya Daya Ram, PostLoharaKhas, District- Bhadohi, Uttar Pradesh-221303
1938	Prajatantra Party of India	H.No.33, Mohalla- Bambaghera, Town & P.S- Ramnagar, District- Nainital, Uttarakhand

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1939	All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam	D. No. 33, Kannadasan Main Road, 1st Floor, S.S. Colony, Madurai, Tamil Nadu-625010
1940	Jan Andolan Morcha	A-8/18, 1st Floor, Block-A, Pocket-8, Sector-17, Rohini, Delhi - 110085.
1941	Bhartiya Himachal Jan Vikas Party	V.P.O. Badalthore, Tehsil - Dehra, Distt. -Kangra, Himachal Pradesh - 177105.
1942	Lok Nirman Dal	2, Aradhana Enclave, Surakhpur Marg, Phase-II, Delhi.
1943	Janta Kranti Party	Bharat Vihar Colony, Opposite of Big Shiv Mandir, Mandavar Road, Bijnaur, District — Bijnaur, Uttar Pradesh- 246701.
1944	Jharkhand Party (Secular)	Village — Unideeh, Post — Raja Ulatu, Thana - Namkum, District- Ranchi, Jharkhand.
1945	Gareeb Jankranti Party	Ward — 12, Holding No. — 747/642, Daudpur Kothi, In front of MIT Gate, Laxmi Chowk, Brahmapura, Muzaffarpur, Bihar - 842003
1946	Madhya Pradesh Jan Vikas Party	New Ward No. 72, H. No. 4872, Plot No.123, Phase — 2, Star City, Katangi Road, Jabalpur, MADHYA PRADESH.
1947	State Samvibhajana Party	H. No. 56, Village — Sonkhas, Tq. — Ner, District — Yavatmal, Maharashtra - 445102.
1948	Indian Lovers Party	No.-23, B-Block, 2 nd Street, Bhoopathy Nagar, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600024.
1949	Bharatiya Lok Sena	Ground Floor, Office No. — 2, Building No. — A.- 212-C, Tirupati Plaza, Street No. -1, Shakarpur Vikas Marg, Delhi- 110092.
1950	Jan Srijan Party	15-D, Kaushalpur, Khargapur, Vikas Khand — Chintah, Gomtinagar, Pargana, Tehsil & District — Lucknow, Uttar Pradesh .
1951	Janshakti Party (Rashtriya)	Plot No. 38, Ground Floor, Opp. KDK Public School, Main Road, Mandawali, F a z a l p u r , D e l h i - 1 1 0 0 9 2 .
1952	Samajwadi Forward Bloc	7-5-14/B, Venkateshwara Colony, Mahboob Nagar, Telangana — 509001
1953	Rashtriya Samta Vikas Party	House No. 227/111, Vishnupuri Bhuteshwar, Post- Krishnanagar, District Mathura, Uttar Pradesh- 281004
1954	Wazib Adhikar Party	Village & Post — Pohaddi Bela, Block Ghanshyampur, District — Darbhanga, Bihar — 847427.
1955	Vasundhara Jan Vikas Dal	Khata No. 39, 59, Plot No. 32, 35 and 36, Mauja and Thana No. 371, New Thana No. 27, NH-2, Shiv Sagar, District — Rohtas, Bihar — 821111
1956	Samdarshi Samaj Party	Village- Manikapur Majre Saray Pandey, Post-Jauras, Pargana & Tehsil-Haidergarh, District-Barabanki, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1957	Hum Bhartiya Party	House No. 1-3-3227, Harshrush, Behind Mukta Lawns, Jijau Nagar, Barshi Road, Beed, MAHARASHTRA- 431122.
1958	Praja Congress Party	D - 6/6154/6, Vasant Kunj, New Delhi -110070.
1959	Anarakshit Samaj Party	H. No. 371, 1 st Floor, Mohalla - Sadhvada, Kaimganj, Distt. - Farrukhabad, Uttar Pradesh.
1960	Makkal Neethi Katchi- India	No. 112 A3, Vaddakku Theru, (Parveen Complex), Ground Floor, Trichy Main Road Thuraimangalam Post, Taluk & District- Perambalur, Tamilnadu- 621220.
1961	Lok Vikas Manch	Shop no.159, 2 nd Floor, Shopping Centre, Near R-World Cinema, Sector —21, Gandhinagar, Gujarat
1962	Aam Dal	Plot/Bhawan No. 191, Budha Enclave, Lohia Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
1963	Samaniya Makkal Nala Katchi	Door No. 298A, Krishnagiri Main Road, Uthangarai, Krishnagiri District, Tamil Nadu- 635207.
1964	Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha	No. 23, Flat No. 401, 4 th floor, Everjoy, Nandanavana, 3 rd Cross, Dwarka Nagar, Channasandra, Bangalore, Karnataka-560098.
1965	Marxist Leninist Party of India (Red Flag)	Door No. 828, 2 nd Floor, Aroma Building, Pudukad PO, Thrissur District, KERALA680301.
1966	Rashtriya Sanyukt Samaj Party	N8/236-R-53-1, (Ganeshdham Colony), Newada, Sunderpur, Varanasi, Uttar Pradesh - 221004.
1967	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	CP-1, Vikrant Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1968	Jantantrik Lokhit Party	2 nd Floor, P. Mall, B-Block, Exhibition Road, Patna bearing Ward No. 6 (Old), 18 (New), Sheet No. 30, Circle No. 06., M.S.P.- 832, 839, 1282, Bihar.
1969	Rashtriya Sarvjan Vikas Party	Khasra No. 496/1, Main Wazirabad Road, Village-Pasonda, Tehsil- Loni, District - Ghaziabad, Uttar Pradesh
1970	Jammu Kashmir Save Party	Rawalpora Village, Srinagar, Jammu & Kashmir
1971	Indian Milan Party of India	Golbazar, Post- Akot, District- Akola, Maharashtra- 444101
1972	One India Party	D-46A, Krishan Vihar, Delhi- 110086
1973	Bhartiya Bahujan Kranti Dal	Sevagadh Building No. 02, Azadegaon, Dombivali East, District- Thane, Maharashtra-421201
1974	Bhartiya Manvadhikaar Federal Party	154/17, Raj Chambers (Fakhruddin Manzil), Alibhai Premji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra- 400007.
1975	Rashtriya Janta Congress	12, Siri Fort Road, New Delhi — 110049
1976	Indian New Congress Party	Office No. 107, 2 nd Floor, 1 st Cross, 'A' Block, A.K. Colony Road, Ghousia Nagar, Mysore City, Karnataka- 570 019.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1977	Yuva Party (Democratic)	Plot No. 63, Gurukrupa Society, Panch Faliya, Dabholigam, Katargam, Surat, Gujarat- 395004.
1978	Khusro Sena Party	1-4/95, Sashtri Nagar, District- Bareilly, Uttar Pradesh.
1979	Bharatiya Praja Surajya Paksha,	A/P- Khandaj, Taluka- Baramati, DistrictPune, Maharashtra- 413116.
1980	Desh Janhit Party	Plot No. 78, Vinayak Co. Housing Society Bidipeth, Behind Power House, Narsala, House No.4430/78, Mouza Bidipeth, Nagpur-30, Maharashtra.
1981	Insaniyat Party	H. No. 262/1, Gannayak Bhavan, At & P.O. Sanali, Taluka Mahudha, Distt. Kheda, Gujarat - 387330.
1982	Aam Janata Party (Sarvajana Hitaya)	243-244, 2 nd Floor, Radha Chambers, Plot No. — 9, G — Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi — 18.
1983	Nationalist Democratic Progressive Party	House No. 155(1), Ward No. 4,Chumukedima, Dimapur, Nagaland —797103.

- (ii) Against Sl. No.222, in respect of 'Awami Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'E-11/77, New Colony, Hauzrani, Malviya Nagar, New Delhi-110017'.
- (iii) Against Sl. No.539, in respect of 'Dalitha Praja Party' the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Mahajana Rajyam Party'.
- (iv) Against Sl. No.998, in respect of 'Makkal Manadu Katchi' the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi'.
- (v) Against Sl. No.1092, in respect of 'National Progressive Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'House No.1080, Block-P/1, Sultan Puri Colony, New Delhi - 110041'.
- (vi) Against Sl. No.1456, in respect of 'Rastriya Insaaf Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries '604, Anubhav Eledco, Udyan -2, Raibareli Road, Lucknow -226025, Uttar Pradesh'.
- (vii) Against Sl. No.1468, in respect of 'Republican Party of India', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Satnam Mansion, 3rd Floor, Building No.245, P Dmello Road, Roll No.1393, Above Muncipal Co-operative Bank, Opposite GPO, Mumbai — 400001'.
- (viii) Against Sl. No.1611, in respect of 'Suheldev Bharatiya Samaj Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Village-Mirangaj, Post Office- Rampur Rasda, District - Balia, Uttar Pradesh-221712'.
- (ix) Against Sl. No.1717, in respect of 'United Women Front' the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Kalinga National Front'.
- (x) Against Sl. No.1754, in respect of 'Vikassheel Samaj Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries '305 A, Sahara Shopping Centre, Faizabad Road, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh — 226016'.

- (xi) Against Sl. No.1766, in respect of 'Welfare Party of India', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'E - 57/1, Abul Fazal Enclave-1, Jamia Nagar, New Delhi - 110025'.
- (xii) Against Sl. No.1804, in respect of 'Samaj Adhikar Kalyan Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Office No.822-823, 8th Floor, M/s Bajwa Development Ltd. Sunny Business Centre, New Sunny Enclave, Sector 125, Mohali, Punjab'.
2. Existing *Table IV* (List of Free Symbols), appended to the said Notification, the entry "**coconut**" at **Sl.No.43** shall be deleted.

K.F.WILFRED,
SR. *PRINCIPAL SECRETARY.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1089-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>